

HZL/2024-25/SECY/104



September 11, 2024

BSE Limited Phiroze Jeejeebhoy Towers Dalal Street, Fort Mumbai - 400 001

National Stock Exchange of India Limited Exchange Plaza, 5th Floor Plot No., C/I, G Block Bandra-Kurla Complex, Bandra (East),

Mumbai – 400 051

Kind Attn: General Manager – Department

of Corporate Services

Kind Attn: Head Listing & Corporate

Communication

Trading Symbol: "HINDZINC" Scrip Code: 500188

<u>Sub: Newspaper Advertisement – Loss of Share Certificates</u>

Dear Sir/Madam,

Pursuant to Regulation 47 of SEBI (Listing Obligations and Disclosure Requirements) Regulations, 2015, please find enclosed the copies of the Newspaper Advertisement for intimation of loss of share certificates of the shareholders of the Company published in the following newspapers:

1. Financial Express (English)

2. Dainik Navjyoti (Hindi)

We request you to kindly take the above information on record.

Thanking You.

Yours faithfully, For Hindustan Zinc Limited

Harsha Kedia **Company Secretary & Compliance Officer**

Enclosed: As above



FINANCIAL EXPRESS

BACK PAGE

• FROM AI DELAY, FALLING CHINA SALES TO HUAWEI'S NEW PHONE

Apple faces tri-fold challenge

New iPhone 16 fails to excite, Mate XT priced too high

REUTERS Beijing, September 10

APPLE'S NEW IPHONE 16 failed to excite investors with long-expected AI features still in test mode even as an industryfirst tri-fold phone from Huawei raised the stakes in a battle to dominate the global smartphone market.

Apple's shares fell 1% in premarket trading on Tuesday, a day after the US tech giant unveiled its new iPhones that sport hardware-level integration for applications based on artificial intelligence but with limited changes to the external design. The phones will use AI features dubbed Apple Intelligence to improve Siri as well as enhance the camera.

These AI features will arrive on iPhones in beta next month. The company did not say when it would move beyond test.

A BATTLE TO DOMINATE THE GLOBAL SMARTPHONE MARKET

iPHONE 16 MATE XT ■ Users can fold the ■ Received Long-Once a third device three ways more than expected Al top-seller in China, 4 mn features still in ■ At **\$2,800**, priced over ranks sixth now test mode 2x the iPhone 16 Pro Max pre-orders Chinese ■ These features Al assistant with text summary, consumers criticised will arrive in translation and editing functions lack of AI features beta next month

Meanwhile, Huawei showed offits new Mate XT, which users can fold three ways. The device has already received more than 4 million pre-orders, for which no deposit is required. It boasts an AI assistant with text summary, translation and editing functions, as well as AI-boosted image editing functions. But with a price tag that starts at \$2,800 — more than twice the starting price of the comparable iPhone 16 Pro Max —and limited production, it may become

more of a symbol of Huawei's

tech prowess than a major sales driver, analysts said.

"Production constraints and the high price point mean the new phone will likely not have a huge impact in terms of shipments," said Will Wong, senior researcher at consultancy IDC.

"But it's telling the consumers that it's still the tech leader and the potential challenge it brings to Apple may be far beyond just market share."

Both phones go on sale on September 20.

Huawei's launch, which follows a series of successful smartphone debuts, underscores its ability to navigate US sanctions and solidifies its position against Apple in China, where some consumers criticised the new iPhone 16 for its lack of AI features in the country.

Apple has yet to announce an AI partner in China to power the 16s and Apple Intelligence, the company's AI software, will only be available in Chinese languages next year. "What's the point of buying it if you can't use AI?" wrote one user on Weibo. Another commented: "Without AI as the biggest selling point, it should be half price."

While Apple for years enjoyed strong demand in China, where launches once sparked a frenzy, sales have dwindled and its ranking has now dropped from third to sixth place.

> A trigger-happy batsman in his heyday, he is more prudent with his words. He is, without a doubt, well acquainted with the dizzy fluctuations of fortunes in Sri Lanka cricket, of wasted potential and unfulfilled promises.

There are several walking chiefly due to injuries, burden of

Lanka's big step forward with England Test win? HYSTERICAL HIGHS, CRUSHING LOWS

Oval victory could be era-defining or another false dawn

SANDIP G New Delhi, September 10

PATHUM NISSANKA MARCH-**ING** towards his hundred and a memorable Test victory in England.Sri Lanka would remember the England tour of 2024 even if they had lost the series, even if they had self-combusted in moments that could have vielded them a brighter outcome, even if the fear of a familiar false dawn stalks every moment of glory.

Stand-in coach and all-time

great Sanath Jayasuriya rolled back the memories to the eradefining Test victory at the same venue, the Oval, 26 years away. "We won a lot of respect after winning that match. Earlier, we used to play one-off Tests. After this, teams began to invite us for a three-Test series," he said. The latest Test win, he asserts, was tougher than the 1998 one. "The conditions were difficult this time, the pitch was green and the ball was moving around, it was difficult to bat," he said.

embodiments of strayed gifts. At the stroke of the previous decade, Angelo Mathews was primed to conquer world cricket with his pristine strokemaking, lively seam bowling and a winsome smile that endeared him to even his bitter adversaries. He shook the world with a thunderous 160 in a famous and series-clinching win at Leeds, months before England hammered India. But a decade later after he was adjudged the Wisden player of the year, his career slumped,

2014 LEEDS

With the stalwarts phasing out, the 100-run win ushered in hope that the transition would be smooth. It didn't exactly pan out the way they hoped

Lost a series at home against South Africa, defeated Pakistan and then lost series to New Zealand (away), India (home) and Pakistan (home)

2019 GQEBERHA

- One of the greatest Test series wins raised optimism about Lanka's resurgence
- But it was not to be, as they waited for two more years to register their next series win

captaincy, self-doubts and the general directionless nature of Sri Lankan cricket this century. He chisels out useful performances, an odd spell of incisive dibbly dobblers or a vintage assault of fours, but never conquered the peaks. A Test batting average of 45.15 suggests diligence, not greatness. Similarly, Kusal Perera, a

Sanath Jayasuriya clone, could never build on his Durban knock. Thirteen more Test innings of nominal yield, he became a one-knock wonder, a proverbial shooting star, his last outing in the longest version coming in 2021. There are others too, like Roshen Silva, architect of a thrilling draw in Kotla, or Dinesh Chandimal of the Galle heist against Ravi Ashwin and Co.

But Perera is perhaps most symbolic of the fits and flashes nature of Sri Lankan cricket. In the last decade, Sri Lanka pro-

 Shock defeat in the opening game against Afghanistan, fought back

Barely managed to qualify for T20 World Cup, losing in the qualifiers

to win the next five games

and clinch the trophy

duced what no other Asian side could; win a Test series in England and South Africa. They nearly pulled off a heist in New Zealand too, where no Asian team has won a Test in 15 years. Yet, for a team predisposed to be competitive in all conditions, they have not cracked the consistency code. It could be that the crisis their country had been riding in the past few years had derailed them in sports too; the chaos in cricket administration could have disillusioned them; the frequent shuffling of the coaching pack might have disturbed them; recession might have forced some of their most talented

The paradox of Sri Lankan cricket is that just when you give up on them, they conjure something magnificent to reinstate hope and joy.

cricketers into seeking the

riches of the franchise leagues.

IT, realty fuel hiring surge in Aug


SUBSTANTIAL GAINS IN the IT and real estate sectors drove a robust 15% y-o-y annual growth in hiring. A steady growth seen with hiring up 8% over the past six months, accroding to a report by foundit Insights Tracker. The IT sector remains a powerhouse, with a remarkable 23% increase in annual hiring, with global capability centres driving much of this demand, making up 62% of IT jobs. The real estate and construction & engineering sectors also saw impressive growth, with hiring rising by 32% and 31%

annually, respectively.



Tier-2 cities are quickly becoming hiring hotspots. Coimbatore saw a 4% m-o-m rise, establishing itself as a growing tech hub alongside established tech hubs like Bengaluru, which recorded a 5% m-o-m and 14% y-o-y increase in IT hiring.





HINDUSTAN ZINC **vedanta** HINDUSTAN ZINC LIMITED CIN: L27204RJ1966PLC001208 NOTICE NOTICE is hereby given that the following share certificates of face value of Rs. 2/- of the Company as per details given hereunder have been reported LOST / MISPLACED and if NO OBJECTION is received within 15 days from the date of publication of this Notice, we shall consider issuance of Duplicate Share Certificates thereof: Name of Shareholder Folio No. Distinctive Nos. Certificate No. of Shares No. From To DEBASISH D000338 1487417751 1487418250 242 500 3600077251 BANERJEE 1537 500 3600077750 500 MADAN MOHAN M002251 1487780896 1487781395 611 500 1906 3600440396 3600440895 For Hindustan Zinc Limited Harsha Kedia Place: Mumbai Date: September 11,2024 Company Secretary and Compliance Officer



September 13, 2024# **NOTICE NO. 42** Notice is hereby given that the Trustee of Nippon India Mutual Fund ("NIMF") has approved the following Distribution on the face value of Rs. 10/- per unit under Income Distribution cum capital withdrawal (IDCW)

Name of the Scheme(s)	Amount of Distribution (₹ per unit)*	NAV as on September 09, 2024 (₹ per unit)	
Nippon India Balanced Advantage Fund - IDCW Option		34.6596	
Nippon India Balanced Advantage Fund - Direct Plan - IDCW Option	0.2000	47.1620	

*Income distribution will be done, net of tax deducted at source, as applicable. #or the immediately following Business Day if that day is a non-business day

option of the undernoted scheme of NIMF, with September 13, 2024 as the record date:

Pursuant to payment of dividend/IDCW, the NAV of the Scheme will fall to the extent of payout, and statutory levy, if any. The IDCW payout will be to the extent of above mentioned Distribution amount per unit or to the extent of available distributable surplus, as on the Record Date mentioned above, whichever is lower.

For units in demat form: IDCW will be paid to those Unitholders/Beneficial Owners whose names appear in the statement of beneficial owners maintained by the Depositories under the IDCW Plan/Option of the Scheme as on record date.

All unit holders under the IDCW Plan/Option of the above mentioned scheme, whose names appear on the register of unit holders on the aforesaid record date, will be entitled to receive the IDCW.

Mutual Fund investments are subject to market risks, read all scheme related documents carefully.

September 10, 2024

Mumbai

For Nippon Life India Asset Management Limited (Asset Management Company for Nippon India Mutual Fund) **Authorised Signatory**

Good gets better

financialexp.epapr.in



उदयपुर

दैनिक नवज्योति



dainiknavajyoti.com

भारतीय ज्ञान-विज्ञान की विरासत हो पाठ्य पुस्तकों में शामिल

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। पेसिफिक विश्वविद्यालय में मंगलावार को नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 को दृष्टिगत रखते हुए तक्षशिला विद्यापी इसंस्थान चीरवा एवं पूणे स्थित नमस्ते इंडिया इंटरनेशनल के संयुक्त प्रायोजनान्तर्गत दी गोल्डन ऐरा ऑफ इंडियनएज्युकेशन पुस्तक का विमोचन हुआ। तक्षशिला विद्यापीठके निदेशक प्रो. जीएल मेनारिया ने बताया कि भारत शिक्षा के इतिहास में प्राचीनकाल में ज्ञान विज्ञान, शिक्षा, चिकित्सा ज्योतिष, गणित, रसायनशास्त्र, भौतिकी एवं खगोलशास्त्र के क्षेत्र में अग्रणी रहा। अतः 'भारतीय शिक्षा का स्वर्णयुग' नामक उक्त प्रकाशित पुस्तक अतीत के अतुलय ज्ञान विज्ञान



ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर।राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन कार्यक्रम के तहत जिले के गिर्वा ब्लॉक के पीएचसी पई के आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र पीपलवास का राष्ट्रीय टीम द्वारा निरीक्षण किया गया। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉ शंकर एच बामनिया ने बताया कि भारत सरकार द्वारा डॉ बसंत कुमार गुप्ता और डॉ मुणालिनी उपाध्याय निरीक्षण करने केलिए उदयपुर आए। टीम ने आयुष्मान आरोग्य मंदिर उप स्वास्थ्य केंद्र पीपलवास के सभी विभागों के मापदंडों पर भारत सरकारद्वारा निर्धारित चेक लिस्ट के अनुसार निरीक्षण किया।अतिरिक्त मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ रागिनी अग्रवाल ने बताया कि स्वास्थ्य केंद्र की साफ-सफाई, बायोवेस्ट मैनेजमेंट, निशुल्क जांच, निशुल्क दवा वितरण, उपकरणों की उपलब्धता,मानव संसाधन आदि मानकों पर निरीक्षण किया गया। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के चिकित्सा प्रभारी डॉ वसीम ने संस्थान पर उपलब्ध सुविधाओं की जानकारी दी।उप स्वास्थ्य केंद्र पीपलवास के सीएचओ दुर्गा मीणा और एएनएम हेमलता ने सभी मापदंडों को बारीकी और विस्तार से रिकार्ड सहित बताया

> कार्यालय वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रबंधक, रीको जिला उद्योग केन्द्र परिसर, राजसमन्द (राज.)

जो।- 177 क्षेत्रफल 1000.00 वर्गमोटर का आवंटन पत्र क्रमांक 3042-3045 दिनांक 15.07.2003

को भैससं क्रिएटिय आई फिल्म एण्ड एड वर्टाइजस योपराइटर श्री ज्योति शर्मा को किया गया था। पूखण्ड

की लीज डीड का निष्यादन दिनांक 28.03.2005 को किया गया था। लीज डीड को कार्यात्य उप पंजीयक राजसमन्द में दिनांक 28.03.2005 की पंजीकृत किया गया था जिसे पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ

संख्या 66 क्रम संख्या 2005000411 एवं ऑतीरिक पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या । 19-131 पर चस्पा

किया गया। मैसर्स क्रिएटिव आई फिल्म एण्ड एडवर्टाइजेंस द्वारा मुखण्ड की चेनान मैसर्स महावीर मार्यल

कॉफ्ट को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 24.12.2009 होरा किया गया। मैसर्स महाबीर मार्नल कॉफ्ट द्वारा पूखण्ड का चेचान मेंसस डॉल्फ इंडिया डी. दूल्स को जारेंये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक

21.08.2013 द्वारा किया गया। मैसर्स डॉल्क इंडिया डी. ट्रेंट्स द्वारा पूखण्ड का चेचान मैसर्स धर्मराज

पूर्खण्ड संख्या जो 1 - 178 क्षेत्रफल 1000.00 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 8038-8040 दिनांक 30.10.2003 का मससं धर्मराज पट्टी कॉमिकल्स प्रापरष्ट्र श्री शिव लाल खटीक की

किया गया था। पूखण्ड को लीज डीड का निष्पादन दिनांक 07.01.2004 को किया गया था। लीज

डीड को कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द में दितांक 09.01.2004 की पंजीकृत किया गया था जिसे पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 196 क्रम संख्या 2005000001 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या

361-373 पर चस्या किया गया । शिव लाल खटोक द्वारा मुखण्ड का बेचान गंगाराम खटोक की जरिये

गया था। पूखण्ड की लीज ढींड का निप्पादन दिनांक 11.09.2003 की किया गया था। लीज डींड की कार्यातय उप पंजीयक राजसमन्द में दिनांक 12.09.2003 को पंजीकृत किया गया था जिसे पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 96 क्रम संख्या 1096 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 384-395 पर

चस्पा किया गया। शिव लाल खटीक द्वारा भुखण्ड संख्या जी१-178-179 का वेचान गंगाराम खटीक को जरिये पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2005 द्वार किया गया। भूखण्ड संख्या एच 1-180-

183 क्षेत्रफल 2268 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 5295-98 दिनांक 07.12.2005 को पसर्स धर्मराज पेट्रो केमिकल्स प्रोपराइटर श्री गंगाराम सुयाल को किया गया था। पूरापड की लीज डीड का

निष्पादन दिनांक 04.03.2008 को किया गया था। लीज डीड को कार्यालय उप यंजीयक राजसमन्द

में दिनांक 07.03.2008 को पंजीफ़त किया गया था जिसे पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 38 क्रम संख्या 2008000638 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 पृष्ट संख्या 299-314 पर चस्पा किया गया। प्खण्ड संख्याएच1-180-183को अन्तिरक्त भूमि 130चर्यासाटर को लोजडोड का निष्पादनदिनांक 20.11.2017 को किया गया था व कार्यानय उप पंजीयक राजसमन्द में दिनांक 27, 11.2017 को पंजीकृत किया

गया था जिसे पुस्तक संख्या 1 प्रष्ठ संख्या 108 क्रम संख्या 201703128103022 एवं अर्तिरक्त

दिनांक 30.11.2019 को मैसर्स धर्मराज पेद्रो केपिकल्स प्रापराइटर श्री गंगाराम सुयाल को किया गया था। मुखण्ड की लीज डीड का निष्मुदन दिनांक 29.04.2022 को किया गया था। लीज डीड को

कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द में दिनांक 29.04.2022 को पंजीकृत किया गया था जिसे पुस्तक

संख्या 1 पृष्ठ संख्या 179 क्रम संख्या 202203128101841 एवं अतिरिक्त पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 211-321 पर चस्पा किया गुपा। भूखण्ड संख्या जी 1, एच1 - 177, 178.179.180 से

183. 184 का विलय कार्यालय आदेश ऋषांक 164 दिनांक 10.05.2022 की किया गया। विलय

उपरान्त् सप्लोमेन्द्री लाजङार का निप्पादन दिनांक 12.07.2022 की किया गया था । सप्लीमेन्द्री लीज ढींढ की कार्यालय उप पंजीयक राजसमन्द में दिनांक 12.07.2022 की पंजीकृत किया गया था जिसे

पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 43 क्रम संख्या 202203128102898 एव अर्जिट्क पुस्तक संख्या 1

आर्नलाइन माध्यम से आयेदन प्रस्तुत कर भूखण्ड का हस्तांतरण मूल ऑवंटी श्री गंगाराम सुयाल के स्वर्गवास हो जाने के कारण अपने नाम करवाने हेतु किया है साथ हो आवेदक द्वारा मूल आवंटी श्री

गंगाराम सुयाला का मृत्यु प्रमाण पत्र व उप पंजीयक राजसँगंद से पंजीकृत परित्याग-पत्र दिनांक 2 1.05.2024

की छाया प्रति प्रस्तुत की है । आवंदक श्री विनाद सुयल व श्री वृजेश सुयल द्वारा उपरोक्त दस्तावज

प्रस्तृत कर मूल आवटी का स्वर्गवास हो जाने के कारण पंजीकृत परित्याग-पत्र के अनुसार पूखण्ड का

वर्तमान में उक्त पूछण्ड जरण सुविधा हेतु एवडीएफसी बैंक, उद्यपुर के पास बंगक है। एवडीएफसी बैंक, उद्यपुर के पास बंगक है। एवडीएफसी बैंक, उद्यपुर द्वारा मूल आवंटी श्री गंगाराम सुवल की मृत्यु है। जाने के कारण पूछण्ड का हस्तांतरण आवंटी के दोनो पुत्र श्री विने । रसुयल एवं श्री वृजेश सूचल के पक्ष में भगोदारी फर्म मससे घमराज पेट्रीकेमिकल्स के नाम करने बायन अनापित प्रमाण पत्र दिनांक 13.08.2024 प्रस्तुत किया है। अतः समस्त अभ जन् / वितोष संस्था / बैंक एवं अन्य सभी संबाधनों को इस सुचना के प्रकारन

के द्वारा सुचित किया जाता है कि पृखण्ड का हस्तांतरण भागीदारी फर्म मैससं धर्मराज रेंद्रों केपिकल्स

जिसके पानीदार 1. श्री विनीद सुयल 2. वृजेश सुयल है के पक्ष में करने संबंध में कोई आपति हो तो सुचना प्रकासन की तिथि से 30 दिवस के भीतर मय दस्ताचेज के इस कार्यात्तव में अपनी आपति दर्ज

करावें अन्यथा उक्त अवांत्र पश्चान किसी भी आपत्ति पर कार्यवाही नहीं की जाएगी एवं पूखण्ड का

हस्तांतरण आवेदको के पक्ष में कर संशोधित लीड डीड का निष्पादन कर दिया जाएगा।

आवेदक श्री विनोट सुयल व श्री वृजेश सुयल पुत्र श्री गंगाराम सुयल द्वारा इस कार्यालय में

पूखण्ड संख्या एचा-184 क्षेत्रफल 734.62 वर्गमीटर का आवंटन पत्र क्रमांक 6628-30

पूखण्ड संख्या जी। - 179 क्षेत्रफल 1,000.00 चर्गमीटर का आवंटन पत्र ऋपांक 3,271-3274 दिनांक 28.07.2003 की मैसर्स धर्मराज रेट्रो केर्यकत्स प्रापराइटर श्री शिव लाल खटीक को किया

पेट्रो कैमिकल्स की जरिये पंजीकृत विकय पत्र दिनाक 17.04.2017 द्वारा किया गया।

पंजीकृत विक्रय पत्र दिनांक 04.08.2005 हारा किया गया ।

पुस्तक संख्या 1 पृष्ठ संख्या 280-294 पर चस्पा किया गया।

पुष्ट संख्या 348-353 पर चस्पा किया गया।

हस्तांतरण अपने पक्ष में करबान का अन्राप्त्र किया है।

आम सूचना सर्वसाधारण को सुनित किया जाता है कि औद्योगिक क्षेत्र ग्रेहन्दा राजसमृन्द में भूखण्ड संख्या



की विरासत बया करती है। संगोष्ठी के निदेशक पाहेर ग्रप के अध्यक्ष प्रो. बीपी शर्मा ने बताया कि विश्व के मानचित्र पर भारतीय इतिहास कला, संस्कृति की अमिट छाप है। मख्य

ब्युरो नबज्योति/ उदयप्र

मुख्यमंत्री जल स्वावलम्बन अभियान-

अतिथि पूर्व संभागीय आयुक्त डॉ. श्यामसिंह राजपुरोहित ने पेसिफिक से किए गए अपने शिक्षा विषयक शोधकार्य - भारतीय शिक्षा बिकास के इतिहास पर तथ्यात्मक प्रकाश डाला।

शहर की झीलों को लोग गंदा न करें. इसकी देखरेख के लिए लेक पेट्रोलिंग टीम बनी हुई है, पर हकीकत में यह नागरिकों में ऐसा डर पैदा नहीं कर पाई हैं जिससे लोग झीलों में गंदगी न करें। ऐसे में लेक पेट्रोलिंग टीम को जागरूक कर इसके फेरे बढ़ाए जाएं व गंदगी करने वालों पर जुर्माना लगाया जाए, ताकि झीलों को साफ रखने में मददमिले। यह मांग हाईकोर्ट निगरानी समिति के सदस्य ज्ञानप्रकाश सोनी ने कलेक्टर अरविंद पोसवाल व युडीए कमिश्नर राहुल जैन से की है। साथ ही लेक पेट्रोलिंग टीम द्वारा हरमाह किस-किस दिन कितने चक्कर

लगाए जाते हैं तथा कितने लोगों पर

जुमांना लगाया गया है, इसकी

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर।

जल खावलंबन अभियान अंतर्गत विभागवार खीकृत कार्यों की प्रगति पर हुई चर्चा, दिए आवश्यक निर्देश

2.0 (प्रथम चरण) की समीक्षावैटक मंगलवार को जिला कलक्टर अरविन्द कुमार पोसवाल के निर्देशन में जिला परिषद के एसीईओ अंजुम ताहिर सम्मा के सानिध्य में हुई। वैठक में एसीईओ सम्मा ने निर्देश दिए कि राज्य स्तर से संशोधित लक्ष्य अनुसार समस्त विभाग प्रथम चरण में किए जाने वाले कार्यों की वर्क आईडी एवं जोडने व निरस्त किए जाने वाले कार्यों की वर्क आईडी आवश्यक रूप से 11 सितंवर तक भेंजे। उन्होंने बताया कि भविष्य में राज्य स्तर से समीक्षा बैठक पोटंल पर दर्ज प्रगति से की जाएगी। उन्होंने कहा कि राज्यमद में जिले में उपलब्ध राशि 39.76 करोड अनुसार अब तक स्वीकृत कार्यों की निबदा प्रक्रिया पूर्ण कर कार्यादेश जारी कर अभियान विभागवार, मदवार निर्धारित लक्ष्य



पूर्ण कराना सुनिश्चित करवाएं और एमजे एसए पोर्टल पर समस्त विभाग विभागीय मद, महानरेगा मद एवं राज्य मद में जारी वित्तीय स्वीकृति को शीघ्र अपलोड कराएं उसके उपरान्त मोबाइल एप के माध्यम से कार्यों की प्रगति अद्यतन करें। वैठक में वाटरशेड अधीक्षण अभियंता अतुल जैन ने पीपीटी के माध्यम से

में बताया। वैठक में अभियान अन्तर्गत जलाग्रहण विकास एवं भू-संरक्षण विभाग की प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना- 2.0 (विभागीय मद) की भी समीक्षा की गई एवं एमजेएसए-2.0 द्वितीय चरण हेतु राज्य स्तर से निर्धारित मानदंड अनुसार जिला उदयपुर एवं सलुम्बर के लिए चयनित 161 ग्राम पंचायतों के 414 गांवों के बारे में जानकारी दी गई।

प्रगतिशील किसान हीरालाल पटेल स्वराज पुरस्कार से सम्मानित

ब्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। नईदिल्ली में आर्योजित ५वें एग्रेटेक शिखर सम्मेलन और स्वराज पुरस्कार 2024 सम्मेलन में जिले के तुरगढ़ गांव के प्रगतिशील



किसान होरालाल पटेल को पारंपरिक और स्वंदरी फसले श्रीअन के निरंतर खेती करने एवं दूसरे किसानों को भी श्रीअन्न की खेती करने के लिए प्रोत्साहित करने के लिए सम्पानित किया गया। साथ ही सुधारमादड़ा गांव के वनधन शक्ति महिला प्रेंड्यूसर कंपनी को अग्रणी स्टार्टअप संगढन पुरस्कार से सम्पानित किया। केवीके के वरिष्ठ बैज्ञानिक डॉ.प्रफुल 'गटनागर ने वताया कि पटेल एवं वनधन शक्ति महिला प्रोड्यूसर कंपनी को यह पुरस्कार भारतीय कृषि अनुसंघान परिपद, नई दिल्ली मे आउटलुक एवं स्वराज ट्रैक्टर के साझा में हुए राष्ट्रीय स्तरीय अवार्ड समरोह में कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के सचिव दिवेश चत्बेंदी ने प्रदान किया। प्रोड्यूसर कंपनी की तरफ से शांति बाई तथा ग्रामश्री फाउंडेशन टस्ट की तरफ से देवीसिंह ने यह अवार्ड लिया।

विक्र रमार्ट रटीकर का विमोचन, सड़क सुरक्षा की दिशा में अहम कदम

व्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। भारतीय सर्वधर्म संसद के वरिष्ठ धर्म गुरुओं के सम्मान में मोहनलाल सुखाड़िया विश्वविद्यालय के प्रांगण



में विक्र रोड सेफ्टो स्टीकर का विधिवत विमोचन हुआ। कार्यक्रम में यह स्टिकर सड़क सुरक्षा और पार्किंग की समस्याओं को सुलझाने के लिए एक महत्वपूर्ण समाधान के रूप में प्रस्तृत किया गया। बताया गया कि विक्र स्मार्ट स्टीकर दुघंटना की स्थिति में परिवारजनों को तुरंत सूचना प्रदान करता है। इससे उन्हें तत्काल सहायता प्राप्त करने में स्विधा होती है और समय पर इलाज सुनिश्चित किया जा सकता है। दुर्घटना की स्थिति में एंवुलेंस चालक विक्र स्टीकर को स्कैन करके दुर्घटनाग्रस्त वाहन चालक की मंडिकल डिटेल और परिवारजनों के संपर्क नंबर त्रंत प्राप्त कर सकता है। यह प्रक्रिया न केवल दुघंटना के स्थान पर त्वरित इलाज को सुनिश्चित करती है, व्यक्ति मेडिकल आपातकालीन सेवाओं की सटीकता भी बढ़ाती है। वर्तमान में विक्र स्मार्ट स्टिकर को लगाने की काफी मांग उत्पन हो गई है। यह स्टिकर अब टू व्होलर, फोर व्हीलर और कमर्शियल व्होकल्स पर लगवाने की योजना बनाई जा रही है।

अर्बन रकेचर्स के रकेच्स की तीन दिवसीय प्रदर्शनी का शुभारंभ

व्यूरो नवज्योति/ उदयपुर। उदयपुर विकास प्राधिकरण के आयक्त ग्रहल जैन न कहा कि स्केचिंग भी एक प्रकार की साधना है और इससे जुड़े अवंन स्केचर्सने लगातार एक सौ सप्ताष्ट तक स्केचिंग करते हुए अनूड। उदाहरण प्रस्तुत किया



है। जैन गंगलवार को सूचना केंद्र में ऑन-लोकेशन स्केचिंग के लिए समर्पित स्केच आर्टिस्ट्स के वैश्वक समुदाय 'अर्थन स्केचसं' उदयपुर द्वारा हर रविवार स्केच मीट का शतक पूरा होने के उपलक्ष में आयोजित तीन दिवसीय स्केच प्रदर्शने का शुभारंभ करते हुए संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि पर्यटन, इतिहास और कला-संस्कृति के लिए विश्वविख्यात लेकसिटो में कलाकारी द्वारा लगातार इस प्रकार से कला-साधना की जा रही है, यह सुखद है। जैन ने सभी कलाकारों को आगमी दिनों में फतहसागर में स्थित नेहरू गार्डन में भी स्केचिंग के लिए आमंत्रित किया।

पेंशनर्स समस्या समाधान शिविर आज

HINDUSTAN ZINC

***vedanta**

हिन्दुस्तान ज़िंक लिमिटेड

वरिष्ठ क्षेत्रीय प्रवंघक रीको राजसपन्द

तीआईएन: L27204RJ1966PLC001208 पंजीकृत कार्यांसय : यशद भवन, यशदगढ़, उदयपुर, राजस्थान-313004 पेबसाइट: www.hzlindia.com ईमेल: hzl.secretarial@vedanta.eo.in द्रभाव: 91-294-6604000

इसके द्वारा सूचित किया जाता है कि कंपनी के 2/- रुपये अंकित मूल्य के निम्नलिखित शेयर प्रमाणपत्र, जिनका विवरण नीचे दिया गया है, खो गए / गुम हो गए हैं और यदि इस सूचना के प्रकाशन की तिथि से 15 दिनों के भीतर कोई आपित प्राप्त नहीं होती है, तो हम उनके इप्लिकेट शेयर प्रमाणपत्र जारी करने पर विचार करेंगे:

क्रम	शेयरधारक का नाम	फोतियों नं.	शेयरों की संख्या	विशिष्ट संख्या		सर्टिफिकिट नं.
संख्या				स्रे	तक	साटाकाकट न,
1	देवाशीष बनर्जी	0000338	500	1487417751	1487418250	242
			500	3600077251	3600077750	1537
2	मदन मोहन N	M002251	500	1487780896	1487781395	611
		IVIO02251	500	3600440396	3600440895	1906

स्थानः मुम्बई दिनांकः 11 सितम्बर, 2024

हिन्द्स्तान जिंक लिमिटेड के लिए हर्षा केडिया

कंपनी सचिव और अनुपालन अधिकारी

व्यूरो नवज्योति/ उदयप्र। संभाग के समस्त पत्रतरों की समस्याओं के समाधान व कार्यालगाध्यक्ष-विभागाध्यक्षों को औनलाइन पंशन प्रकरणप्रेषित करने में आरही कठिनाइयों के निराकरण हेतु बुधवार को पेंशन कार्यालय में एक दिवसीय पेंशनसं समस्या समाधान शिविर का आयोजनिकया जाएगा। अतिरिक्त निदेशक पेंशन उदयपुर भारतीराज ने बताया कि शिबिर में अने वाले पेंशनर्स व विभागी की समस्याओं का समाधान कर उन्हें आवश्यक जानकारी दी जाएगी।

विश्वकर्मा दिवस पर सवैतनिक अवकाश रखने की अपील

ब्यूरो नवज्योति/ उदयप्र। राज्य सरकार के श्रम विभाग की ओर से विश्वकर्मा दिबस 17 सितंवर के अवसर पर श्रीमक वगं के लिए सवैतनिक अवकाश रखने व श्रिमिक वर्ग समारोह मनाने की अपील की गई है। संभागीय संयुक्त श्रम आयुक्त संकेत मोदी ने राज्य सरकार के दिशा-निर्देशानुसार श्रीमक वर्ग समारोह को सदभावना एवं हर्षेल्लास के साथ मनाने के उद्देश्य से समस्त औद्योगिक एवं वाणिज्यिक संस्थानें के नियोजकों व लोकक्षेत्र के प्रतिष्टानों से अपील कर 17 सितंबर के सबैतनिक सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की अपील की गई।

दैनिक नैवज्योति

ॐ गणानांत्वा गणपतिं हवामहे

ईश्वरीय तत्व का मानवीयकरण और उससे गहरी आत्मीयता सनातन धर्म की विशेषता है। हिन्दू साधना प्रणालियों में श्री गणेश प्रथम पूज्य हैं। आध्यात्मक आरोहण की पहली सीढ़ी पर ही उनका साक्षात्कार होता है।

भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि उनकी उपासना की प्रशस्त तिथि है। अतः इस अवसर पर नव ज्योति ने सेल्फी विद गणेशा का आयोजन किया। यह पाडकों की गणेश से रागात्मक एकता और अपनी परम्पराओं एवं स्वयं भगवत तत्व में उनके अनुराग को प्रतिपादित करने के लिए किया गया था। इस पर पाठकों की प्रतिक्रिया उत्साहजनक थी। यह उमंग हमें भी छू गया है। अतः हम आज के अंक में गणपित की तस्वीरों-मूर्तियों के साथ पाठकों की सैल्फी प्रकाशित कर रहे हैं।इस सकारात्मक प्रतिक्रिया के लिए हम पाठकों के कृतज्ञ हैं।





सेल्फी ब्ब









श्रेयांश सैनी





प्रकाश और सुशीला



















सोनल खन्ना













नमिश और बिद्दू





